

171-Polity  
08/10/2020

976/ACT/POLICY  
07-10-2020

e-998059/CGST  
07/10/2020

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, L.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3(48)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/105

Dated: 30/9/20

Notification No. 32/2020- State Tax

No. F.3(48)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ -In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.76/2018- State Tax, dated the 3<sup>rd</sup> September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. No. F.3(36)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/399, dated the 3<sup>rd</sup> September, 2019, namely:-

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the tax period as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, but furnishes the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:-

Table

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Condition (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in <b>FORM GSTR-3B</b> is furnished on or before the 24 <sup>th</sup> day of June, 2020

790/177  
13/10/2020

Ackd  
Gaur  
6/10/20

9520 W  
9/10/2020

Ms. Parnam | Sr Incharge, I Cell  
12/10/2020  
GAT (Mumbai)

2.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	February, 2020 and March, 2020	If return in <b>FORM GSTR-3B</b> is furnished on or before the 29 <sup>th</sup> day of June, 2020
		April, 2020	If return in <b>FORM GSTR-3B</b> is furnished on or before the 30 <sup>th</sup> day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	February, 2020	If return in <b>FORM GSTR-3B</b> is furnished on or before the 30 <sup>th</sup> day of June, 2020
		March, 2020	If return in <b>FORM GSTR-3B</b> is furnished on or before the 3 <sup>rd</sup> day of July, 2020
		April, 2020	If return in <b>FORM GSTR-3B</b> is furnished on or before the 6 <sup>th</sup> day of July, 2020.

2. This notification shall come into force with effect from the 20<sup>th</sup> day of March, 2020.

By order and in the name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

  
(Manoj Kumar)  
Dy. Secretary IV (Finance)


Dated: 30/9/20

No.F.3(48)/Fin(Rev-1)/2019-20/DS-IV/105

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File
11. Website.

  
(Mahoj Kumar)  
Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal notification number 76/2018 - State Tax, dated the 3<sup>rd</sup> September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(36)/Fin.(Rev-I)/2019-20/138-VI/399, dated the 3<sup>rd</sup> September, 2019.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनाधी)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वित्त (राजस्व-1) विभाग,  
दिल्ली अधिकारलय, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002.

सं.का. 3(48)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डी.एस. IV/105

दिनांक: 30/3/20

अधिसूचना संख्या 52/2020-राज्य कर

सं.का. 3(48)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डी.एस. IV/ - दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 12B के साथ पठित धारा 14B द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं 76/2019-राज्य कर, दिनांक 03/09/2019, जिसे सं. का. 3(36)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डी.एस.-IV/899 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना के दूधरे परतुक्त के बाद निम्नलिखित प्रस्तुत अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उन संयोजित व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तम (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं, और जो मिला तारीख तक प्रत्येक जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं लेकिन स्तम (4) में ताल्खानी प्राविष्टि में उल्लेखित शर्तों के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उस अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलेन फीस को उस कर अरुष्टि के लिए अधिलक्ष्य हो जाएगी, जो स्तम (3) में ताल्खानी प्राविष्टि में निर्दिष्ट, निम्नलिखित कर अवधि है, -

तालिका

क्रम सं. (1)	संयोजित व्यक्तियों का वर्ग (2)	कर अवधि (3)	शर्त (4)
	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आय 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि प्रत्येक जीएसटीआर-3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आय 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि प्रत्येक जीएसटीआर-3ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि प्रत्येक जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आय 1.5	फरवरी, 2020	यदि प्रत्येक जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या

करोड़ रुपये तक हो		उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।
	मार्च, 2020	यदि प्रत्येक जीएसटीआर-3ब में विवरणों 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।
	अप्रैल, 2020	यदि प्रत्येक जीएसटीआर-3ब में विवरणों 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

*(मनोज कुमार)*  
उप सचिव-IV (वित्त)

सं.का. 3(46)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डी.एस.IV/105

दिनांक: 20/3/20

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अपसारित:

1. माननीय प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली के एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार असाधारण में प्रकाशनाार्थ।
3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. अनुकूल शोध कर, दिल्ली, व्यापार मण्डल आई.टी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्यधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. रिकॉर्ड।

*(मनोज कुमार)*  
उप सचिव-IV (वित्त)

नोट: मूल अधिसूचना सं 78/2018-राज्य कर, दिनांक 03/09/2018, जिसे सं. फा. 3(46)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डी.एस-IV/899 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण में भाग-IV में प्रकाशित किया गया था।

